

11th November, 2022

10,	
BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd.
Corporate Relationship Department	Exchange Plaza, C-1, Block G,
1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building,	Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
P. J. Towers, Dalal Street,	Mumbai – 400 051
Mumbai – 400 001	
SCRIP CODE: 543523	SYMBOL: CAMPUS

Subject: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir

Та

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith the Advertisement copies of the Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022 published in the following newspapers:

- a. Mint All India English Edition on 11th November, 2022.
- b. Hindustan Hindi Hindi Edition, New Delhi on 11th November, 2022.

This is for your information and record please.

Thanking you

For CAMPUS ACTIVEWEAR LIMITED

Archana Maini General Counsel & Company Secretary Membership No. A16092

Encl: As above

DIN; 0015066

MAX VENTURES AND INDUSTRIES LIMITED

[Aro granite ind		ies l	td.	
/	(100% Export Oriented CIN : L74899DL1988PLC0 Regd. Office : 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Ph. : 011-41686169, Fax : 011-26941984, Email : investorgrieva	0315́10 Jasola, New Delł ince@arotile.com	, Website : ww		
EXT	RACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND	HALF-YEAR END	DED 30TH SE	PTEMBER 2022 (Rs. in lacs)	
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	
SI.	Particulars	30.09.2022	31.03.2022	30.09.2021	
No		(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1	Total Income from operations	3,850.06	22,610.14	6,582.72	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	30.40	1,077.57	589.69	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	30.40	1,077.57	589.69	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	68.48	890.59	496.25	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	68.48	901.61	499.40	
6	Paid up Equity Share Capital	1,530.00	1,530.00	1,530.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	18,112.19			
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
	1. Basic:	0.45	5.89	3.26	
	2. Diluted:	0.45	5.89	3.26	
	 : The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial results filed wi SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full for available on the websites of the Stock Exchange(s), <u>www.bseindia.com</u>, and <u>wy</u> <u>www.arotile.com</u>. 	rmat of the Quart	erly/Annual Finance and the Cor	nancial results is	
Plac	e : HOSUR. TAMILNADU		Su	-Sd- nil Kumar Arora	

CIN: L85100PB2015PLC039 CORPORATE OFfice: Max Towers, L-12, C-001/A/1, Sector-16B, Noida - 201301, Registered Office: 419, Bhai Mohan Singh Nagar, Village-Railma Tehsil Balachaur, Nawanshehar, Punjab - 144 Website: www.maxvil.c									
EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2022 (Rs. in lakhs except per share data)									
	Quarter	r Ended	Year Ended						
Particulars	30.09.2022 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited						
 Total Income from continuing operations (Discontinued operations Quarter ended 30.09.2022 - Nil, Quarter ended 30.09.2021 - Rs.36,653.74, Year ended 31.03.2022 - Rs. 1,28,013.48 lakhs) 	3,337.03	1,657.20	11,089.29						
 Net Profit/(Loss) for the period before tax and exceptional items from continuing operations (Discontinued operations Quarter ended 30.09.2022 - Nil, Quarter ended 30.09.2021 - Rs.4,243.16 lakhs, Year ended 31.03.2022 - Rs. 21,824.22 lakhs) 	494.31	(264.16)	426.45						
 Net Profit/(Loss) for the period before tax and after exceptional items from continuing operations (Discontinued operations Quarter ended 30.09.2022 - Nil, Quarter ended 30.09.2021 - Rs.4,243.16. lakhs, Year ended 31.03.2022 - Rs. 21,824.22 lakhs) 	494.31	(264.16)	426.45						
 Net Profit/(Loss) for the period after tax and after exceptional items from continuing and discontinued operations (includes profit of non-controlling interest shareholders, Quarter ended 30.09.2022 - Rs. 21.80 lakhs, Quarter ended 30.09.2021 - Rs.1,351.66 lakhs, Year ended 31.03.2022 - Rs. 7.104.09 lakhs) 	364.64	2,558.15	45,872.57						
 Total Comprehensive Income/(Loss) for the period (after tax) from continuing and discontinued operations [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) for the period (after tax)] (includes profit of non-controlling interest shareholders, Quarter ended 30.09.2022 - Rs.21.80 lakhs, Quarter ended 30.09.2021 - Rs.1.393.80 lakhs, Year ended 31.03.2022 - Rs. 7.152.81 lakhs) 	366.88	2,646.07	45,975.70						
 Paid up Equity share capital (Face Value Rs. 10 Per Share) Reserves(excluding revaluation reserves as shown in the balance sheet) Earnings per share (EPS) from continuing and discontinued operations in Rs. (nominal value of Rs. 10/- each) 	14,709.36	14,672.00	14,694.66 104,577.45						
a) Basic (Rs.) b) Diluted (Rs.)	0.34 0.33	0.82 0.82	27.08 26.29						



CIN: L74120DL2008PLC183629

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2022

		(All amo	unts are in IN	R millions exce	pt per share d	ata or as othe	rwise stated
SI. No.	Particulars	For the quarter ended 30 September 2022	For the quarter ended 30 June 2022**	For the quarter ended 30 September 2021		For the six month ended 30 September 2021	For the year ended 31 March 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	3,339.11	3,382.64	2,734.44	6,721.75	4,099.07	11,965.77
2	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	195.64	421.33	379.19	616.97	396.79	1,717.09
3	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	195.64	421.33	379.19	616.97	396.79	1,717.09
4	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	145.43	313.16	282.40	458.59	308.65	1,085.38
5	Total comprehensive Income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	143.87	313.74	283.59	457.61	311.03	1,091.17
6	Equity Share Capital (face value of INR 5 each)	1,523.06	1,521.63	1,518.71	1,523.06	1,518.71	1,521.63
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited Balance Sheet of the previous year						2,754.24
8	Earnings Per Share (face value of INR. 5 each) (for continuing and discontinued operations) (Refer note 6)*						
	1. Basic (INR):	0.48	1.03	0.93	1.51	1.02	3.57
	2. Diluted (INR):	0.48	1.03	0.93	1.50	1.02	3.57

except for yearly figures

**(Restated - refer note 2).

See accompanying notes to the financial results.

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) www.nseindia.com (NSE) and www.bseindia.com (BSE) and the Company www.campusactivewear.com.
- The Board of Directors of Campus Activewear Limited (formerly known as Campus Activewear Private Limited) ('the

1. Additional information on standalone financial results is as follows:

Date : 10.11.2022

	Quarter	Year Ended	
Particulars	30.09.2022 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited
1. Total Income from operations	903.52	550.69	50,823.95
2. Net Profit/(Loss) for the period before tax	133.65	(47.75)	48,320.07
3. Net Profit/(Loss) for the period after tax and exceptional items	103.07	(33.88)	38,345.50
4. "Total Comprehensive Income/(Loss) for the period (after tax) [Comprising Profit/(Loss)	105.31	(31.97)	38,354.43
$f_{\rm ext}$ (1) $f_{\rm ext}$ (

for the period(after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) for the period (after tax)]"

2. The above consolidated financial results of Max Ventures and Industries Limited and its subsidiaries (together referred as 'Group') have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 9, 2022.

3. The above is an extract of the detailed format of quarterly audited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly audited financial results are available on the Stock Exchange websites at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.maxvil.com

	For and on behalf of Board
Date: November 9, 2022	Sahil Vachani
Place: Delhi	Managing Director & Chief Executive Officer



NILKAMAL LIMITED CIN: L25209DN1985PLC000162 Registered Office: Survey No. 354/2 & 354/3, Near Rakholi Bridge



Silvassa-Khanvel Road, Village-Vasona, Silvassa-396 230. (D & N H) Website: www.nilkamal.com · Email: investor@nilkamal.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

						(₹ in Lakhs)	
		STANDALONE		CONSOLIDATED			
Particulars	Quarter Ended 30/09/2022	Quarter Ended 30/09/2021	Half Year Ended 30/09/2022	Quarter Ended 30/09/2022	Quarter Ended 30/09/2021	Half Year Endec 30/09/2022	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
Revenue from Operations	76,053.40	68,900.67	1,46,548.58	80,775.50	73,937.82	1,54,769.40	
Net Profit for the period before Tax, Exceptional and Extraordinary items	3,024.00	3,691.68	6,445.84	3,046.00	3,657.44	6,589.36	
Net Profit for the period before Tax, after Exceptional and Extraordinary items	3,024.00	3,691.68	6,445.84	3,046.00	3,657.44	6,589.36	
Net Profit for the period after Tax, after Exceptional and Extraordinary items	2,275.11	2,735.47	4,849.73	2,393.31	2,827.75	5,256.48	
Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,267.75	2,740.14	4,860.78	2,437.05	2,809.89	5,131.96	
Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10 each per Share)	1,492.25	1,492.25	1,492.25	1,492.25	1,492.25	1,492.25	
Earnings Per Share (Face value of ₹ 10 each) Basic and Diluted (not annulised) (in ₹)	15.25	18.33	32.50	16.02	18.94	35.22	
	Revenue from Operations Net Profit for the period before Tax, Exceptional and Extraordinary items Net Profit for the period before Tax, after Exceptional and Extraordinary items Net Profit for the period after Tax, after Exceptional and Extraordinary items Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10 each per Share) Earnings Per Share (Face value of ₹ 10 each)	Particulars 30/09/2022 Unaudited Revenue from Operations 76,053.40 Net Profit for the period before Tax, 3,024.00 Exceptional and Extraordinary items 30,024.00 Net Profit for the period before Tax, 3,024.00 after Exceptional and Extraordinary items 30,024.00 Net Profit for the period before Tax, 3,024.00 after Exceptional and Extraordinary items 2,275.11 Net Profit for the period after Tax, 2,275.11 after Exceptional and Extraordinary items 2,267.75 [Comprehensive Income for the Period 2,267.75 [Comprising Profit for the Period (after tax) and 0 Other Comprehensive Income (after tax)] 1,492.25 [Face Value of ₹ 10 each per Share) 15.25	ParticularsQuarter Ended 30/09/2022Quarter Ended 30/09/2021Revenue from Operations76,053.4068,900.67Net Profit for the period before Tax, Exceptional and Extraordinary items3,024.003,691.68Net Profit for the period before Tax, after Exceptional and Extraordinary items3,024.003,691.68Net Profit for the period before Tax, after Exceptional and Extraordinary items3,024.003,691.68Net Profit for the period after Tax, after Exceptional and Extraordinary items2,275.112,735.47Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]2,267.752,740.14Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10 each per Share)1,492.251,492.251,492.25Earnings Per Share (Face value of ₹ 10 each)15.2518.33	ParticularsQuarter Ended 30/09/2022Quarter Ended 30/09/2022Half Year Ended 30/09/2022Revenue from Operations76,053.40068,900.671,46,548.58Net Profit for the period before Tax, Exceptional and Extraordinary items3,024.003,691.686,445.84Net Profit for the period before Tax, after Exceptional and Extraordinary items3,024.003,691.686,445.84Net Profit for the period before Tax, after Exceptional and Extraordinary items2,275.112,735.474,849.73Net Profit for the period after Tax, after Exceptional and Extraordinary items2,267.752,740.144,860.78Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]1,492.251,492.251,492.25Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10 each per Share)15.2518.3332.50	ParticularsQuarter Ended 30/09/2022Quarter Ended 30/09/2022Half Year Ended 30/09/2022Quarter Ended 30/09/2022Revenue from Operations76,053.4068,900.671,46,548.5880,775.50Net Profit for the period before Tax, Exceptional and Extraordinary items3,024.003,691.686,445.843,046.00Net Profit for the period before Tax, after Exceptional and Extraordinary items3,024.003,691.686,445.843,046.00Net Profit for the period before Tax, after Exceptional and Extraordinary items2,275.112,735.474,849.732,393.31Net Profit for the period after Tax, after Exceptional and Extraordinary items2,267.752,740.144,860.782,437.05Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit for the Period (after tax) and 	ParticularsQuarter Ended 30/09/2022Quarter Ended 30/09/2021Half Year Ended 30/09/2022Quarter Ended 30/09/2022Quarter Ended 30/09/2021Revenue from Operations0UnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedRevenue from Operations76,053.4068,900.671,46,548.5880,775.5073,937.82Net Profit for the period before Tax, Exceptional and Extraordinary items3,024.003,691.686,445.843,046.003,657.44Net Profit for the period before Tax, after Exceptional and Extraordinary items3,024.003,691.686,445.843,046.003,657.44Net Profit for the period after Tax, after Exceptional and Extraordinary items2,275.112,735.474,849.732,393.312,827.75Net Profit for the period after Tax, after Exceptional and Extraordinary items2,267.752,740.144,860.782,437.052,809.89Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]1,492.251,492.251,492.251,492.251,492.25Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10 each per Share)15.2518.3332.5016.0218.94	

Notes:

Place: Mumbai

Date: 10th November, 2022

(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclousre Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and on Company's website (www.nilkamal.com).

By order of the Board For Nilkamal Limited

Hiten V. Parekh Managing Director

Company') at its meeting held on 11 November 2020 had approved the Scheme of Arrangement (the 'Scheme') for merger of its wholly owned subsidiary (transferor company) with the Company (transferee company) and adjustment of securities premium of the Transferee Company with the debit balance of Capital Reserve. Application seeking approval of the Scheme was subsequently filed with Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi Bench on 25 March 2021. The earlier financial statements of the Company for the year ended 31 March 2022 were approved by the Board of Directors at its meeting held on 30 May 2022 without giving effect to the Scheme since the petition was pending before the NCLT.

NCLT, New Delhi Bench sanctioned the Scheme and pronounced its order on 11 August 2022, certified copy of which was received by the Company on 1 September 2022 and was filed with ROC on 29 September 2022.

Pursuant to the Scheme, all the assets, liabilities, reserves and surplus of the transferor company have been transferred to and vested in the Company with effect from the appointed date i.e. 1 April 2020 at their carrying values

Accordingly, to give effect to the Scheme from the appointed date i.e. 1 April 2020, the Company has revised the earlier approved standalone financial statements for the year ended 31 March 2022. Revised financial statements of the Company for the year ended 31 March 2022 were approved by the Board of Directors at its meeting held on 23 September 2022.

Further, financial results for the guarter ended 30 June 2022 which were approved by the Board of Directors at its meeting held on 12 August 2022 are also restated to give effect to the aforesaid merger and accordingly reported in these financial results.

Reconciliation of published and restated numbers for the guarter ended 30 June 2022 are as given below:

Particulars	Earlier published Consolidated financial results	Restated financial results	Change(s)	Earlier published standalone financial results	Restated financial results	Change(s)
Total Income	3,382.64	3,382.64	-	3,695.17	3,382.64	(312.53)
Total expenses	2,961.31	2,961.31	-	3,519.73	2,961.31	(558.42)
Profit before tax	421.33	421.33	-	175.44	421.33	245.89
Profit after tax	286.60	313.16	26.56	110.85	313.16	202.31
EPS - Basic (INR)	0.94	1.03	0.09	0.36	1.03	0.67
EPS - Diluted (INR)	0.94	1.03	0.09	0.36	1.03	0.67

The above financial results of the Company as published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing 3 Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ('Listing Regulations') have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 10 November 2022. These financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. Limited review under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors of the Company. The auditors have expressed an unmodified report on the Financial Results of the Company. For more details on results, visit investors section of our website at www.campusactivewear.com and Financial Results at Corporate Section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

- 4 The Company completed its Initial Public Offer (IPO) through an offer for sale of 47,950,000 Equity Shares of the face value of INR. 5/- each at an issue price of INR. 292/- per Equity Share. The Equity Shares of the Company were listed on BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) on 9 May 2022.
- The financial results for the corresponding guarter and six month ended 30 September 2021 have not been subject to an audit or review by our statutory auditors. However, the management has exercised necessary due diligence to ensure that the financial results provide a true and fair view of the Company's affairs.
- The Board of Directors and shareholders of the Company at their meeting held on 9 November 2021, had approved 6 stock split of one equity share having face value of INR 10 each into two equity shares having face value of INR 5 each. Amount of EPS for guarter and six month ended 30 September 2021 has been restated accordingly.
- Based on guiding principles given in IND AS 108 "Operating Segments", the Company's business activity falls within a single operating segment namely "Footwear and its related products", hence the disclosure requirements relating to "Operating Segments" as per IND AS 108 are not applicable.

For and on behalf of the Board of Directors of **Campus Activewear Limited**

(formerly known as Campus Activewear Private Limited)

Hari Krishan Agarwal Chairman & Managing Director DIN: 00172467

Place: Gurugram Date: 10 November 2022

> D-1, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New Delhi – 110041, Delhi, India Telephone: +91 11 4327 2500, Email: investors@campusshoes.com, Website: www.campusactivewear.com

This PDF was originally uploade To Teligram channel_LBS Newspaper platform (https://t.me/LBSNEWSPAPER) Subscribe now to get this edition before anyone else!! Backup channel:@LBSNEWSPAPER



अक्तूबर की मुद्रास्फीति के आंकड़ों में आ सकती है तेज गिरावट खुदरा महंगाई में दिखाई देने लगे नरमी के संकेत फीसदी थी सितंबर

नई दिल्ली, एजेंसी। खुदरा महंगाई में अक्तूबर के आंकड़ों में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। यह सितंबर के 7.41 फीसदी के मुकाबले अक्तूबर में घटकर 6.73 फीसदी रह सकती है। रायटर्स के पोल में अर्थशास्त्रियों ने यह राय जाहिर की है।

इसमें कहा गया है कि अक्तूबर में खुदरा महंगाई में गिरावट के बावजूद भी इसके आरबीआई के लक्ष्य से अधिक रहने के आसार हैं। रायटर्स के पोल में 47 अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया। इसे दो से नौ नवंबर के बीच किया गया। खुदरा महंगाई आंकड़े 14 नवंबर को आने हैं।

इसमें कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें कम बढ़ने और एक साल पहले के मजबूत आधार की वजह से अक्तूबर में खुदरा महंगाई घटने का अनुमान है।

इस सर्वे में शामिल तीन-चौथाई अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अक्तूबर में खुदरा महंगाई साथ फीसदी से कम रहेगी। इनका अनुमान है कि अक्तूबर में खुदरा महंगाई 6.4 से 7.35 फीसदी के बीच रह सकती है।

6.73 फीसदी खुदरा महंगाई रहने का अनुमान अक्तूबर में

.4

बहुत जल्द निचले स्तर पर आने की उम्मीद नहीं

ब्याज दरें बढ़ने की आशंका कायम

रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई को दो से छह फीसदी के बीच रखने का लक्ष्य दिया गया है । अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब तक खुदरा

बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्ज पर ब्याज बढ़ा

13

नई दिल्ली, एजेंसी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर 0.15 प्रतिशत बढ़ा दी है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी बयान में बताया कि ब्याज दर में यह बढ़ोतरी विभिन्न अवधि के कर्ज के लिए की गई है। बैंक ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसने 12 नवंबर, 2022 से कोष की सीमांत लागत (एमसीएलआर) आधारित ब्याज दर में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

सेंसेक्स में 420 अंक की गिरावट मुंबई, एजेंसी। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेंक्स 420 अंक लुढ़ककर 61,000 अंक के नीचे बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर बिकवाली दबाव के बीच वाहन, वित्त और ऊर्जा कंपनियों में बिकवाली से बाजार नुकसान में रहा।

कारोबारियों के अनुसार, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट से भी धारणा पर असर पडा। बीएसई सेंसेक्स 420 अंक की गिरावट के साथ 60,614 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 129 अंक गिरकर18,028 अंक पर बंद हुआ।

EVERY MOVE IS A NEW BEGINNING.

Campus Activewear Limited

(formerly known as Campus Activewear Private Limited) CIN: L74120DL2008PLC183629

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2022

(All amounts are in INR millions except per share data or as otherwise stated)

CAMPUS[®]

SI. No.	Particulars	For the quarter ended 30 September 2022	For the quarter ended 30 June 2022**	For the quarter ended 30 September 2021	For the six month ended 30 September 2022	For the six month ended 30 September 2021	For the year ended 31 March 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	3,339.11	3,382.64	2,734.44	6,721.75	4,099.07	11,965.77
2	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	195.64	421.33	379.19	616.97	396.79	1,717.09
3	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	195.64	421.33	379.19	616.97	396.79	1,717.09
4	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	145.43	313.16	282.40	458.59	308.65	1,085.38
5	Total comprehensive Income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	143.87	313.74	283.59	457.61	311.03	1,091.17
6	Equity Share Capital (face value of INR 5 each)	1,523.06	1,521.63	1,518.71	1,523.06	1,518.71	1,521.63
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited Balance Sheet of the previous year						2,754.24
8	Earnings Per Share (face value of INR. 5 each) (for continuing and discontinued operations) (Refer note 6)*						
	1. Basic (INR):	0.48	1.03	0.93	1.51	1.02	3.57
	2. Diluted (INR):	0.48	1.03	0.93	1.50	1.02	3.57



अर्थशास्त्रियों का हालांकि, यह भी का कहना है कि महंगाई के लिहाज से हालात में अचानक सुधार आने का संकेत नहीं है। लेकिन, इससे यह संकेत मिलता है कि

कीमतों पर दबाव में धीरे–धीरे कमी आ रही है। इसमें कहा गया है कि महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन, इसमें कमी आने की रफ्तार बहुत सुस्त होगी।

में खुदरा

मुद्रास्फीति

आपूर्ति में सुधार करना होगा

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि आरबीआई तब तक रेट बढ़ाता रहेगा, जब तक उसे यह भरोसा नहीं हो जाता कि महंगाई फिर से नहीं बढ़ेगी। इसमें कमी आने की बड़ी वजह कुछ चीजों की आपूर्ति में सुधार है।

पर्यटन क्षेत्र में रौनक जल्द लौटेगी

तय है। इक्रा की रिपोर्ट के मुताबिक

27 मार्च, 2022 से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने

पूरी तरह से शुरू होने के बाद से

विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या में तेज वृद्धि

नए साल के मौके पर देश में कई जगहों से विदेशी सैलानी भी आते हैं और

भारत से लोग विदेश भी बड़े पैमाने पर जाते हैं। ट्रैवेल क्षेत्र के कारोबार से जुड़ी

कंपनियों के पास दिसंबर महीने को लेकर बुकिंग आनी शुरू हो गई हैं। मेक

सैलानियों के आंकड़ों में कोरोना के पहले के स्तर तक सुधार देखने को मिलने

माई ट्रिप के सीओओ विपुल प्रकाश ने हिन्दुस्तान को बताया है कि घरेलू

लगा है। आने वाले दिनों में इसमें और बढत की उम्मीद जताई जा रही है।

'कमजोर रूपये से भारतीय

महंगाई आरबीआई के तय लक्ष्य के दायरे में नहीं आ जाती है तब तक रेपो दरों में बढ़ोतरी का दबाव बना रहेगा।

एक पॉलिसी में कई वाहन के लिए बीमा

नई दिल्ली, एजेंसी। गैर-जीवन बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 14 नई बीमा पॉलिसी शुरू की है। इसमें स्वास्थ्य, कॉर्पोरेट और मोटर वाहन क्षेत्र के उत्पाद शामिल हैं। कंपनी ने बयान में कहा कि मोटर

वाहन के तहत एक फ्लोटर मोटर बीमा भी है जिसके तहत अपने कई निजी वाहनों का एक बीमा खरीदा जा सकता है। यह परंपरागत बीमा से सस्ता भी है।

🛯 सौरम शुक्ल नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बाद देश में विदेशी यात्रियों का आना बिल्कुल ही बंद हो गया था लेकिन अब इसमें एक बार फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है।

कोरोना के बाद पहली बार इस साल नए वर्ष पर विदेशी सैलानियों के लिए उड़ानें चालू रहेंगी, साथ ही भारतीय भी विदेश जा सकेंगे जिससे होटल और ट्रैवेल क्षेत्र के कारोबार में मुनाफा होना

उत्पादों की कीमत बढ़ने से छोटे पैकेट खरीद रहे लोग

ऊनो मिंडा लिमिटेड

(पूर्वतः मिंडा इंडस्ट्रीज़ लि. के नाम से ज्ञात)

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में दैनिक उपभोग का सामान बनाने वाले उद्योग (एफएमसीजी) में सितंबर तिमाही में भी खपत में नरमी जारी रही।

नील्सनआईक्यू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि व्यापक मुद्रास्फीतिक दबाव की वजह से कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं जिसके कारण उपभोक्ता उत्पादों के

यह लगातार चौथी तिमाही है जब मांग में गिरावट आई है जिसका कारण बीती छह तिमाहियों से दहाई अंक में रही मूल्यवृद्धि है। ग्रामीण बाजारों में मांग जून तिमाही में 2.4 प्रतिशत घटी थी जो सितंबर तिमाही में और घटकर 3.6 प्रतिशत हो गई।

कंपनियों का लाभ बढ़ा' छोटे पैकेट खरीदना पसंद कर रहे हैं। नई दिल्ली, एजेंसी। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि उसकी रेटिंग वाली भारतीय कंपनियों में से करीब आधी की मूल लाभप्रदता रुपये के मूल्य में गिरावट की वजह से बढ़ी है।

अमेरिका की रेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा, वह भारतीय कंपनियां जिनकी हम रेटिंग करते हैं उनमें से

ज्यादातर के राजस्व का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है इसलिए रुपये में गिरावट का इसपर असर नहीं पडा।

अक्टूबर तक यात्रियों की संख्या

कोरोना पूर्वू के मुकाबले 83 फीसदी

के स्तर तक पहुंच चुकी है।

इन कंपनियों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, धातु और रसायन क्षेत्र की कंपनियां हैं। इस बीच रुपया सात पैसे बढ़कर 81.40 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

*Basic and Diluted EPS is not annualised except for yearly figures.

**(Restated - refer note 2).

See accompanying notes to the financial results.

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) www.nseindia.com (NSE) and www.bseindia.com (BSE) and the Company www.campusactivewear.com.

The Board of Directors of Campus Activewear Limited (formerly known as Campus Activewear Private Limited) ('the Company') at its meeting held on 11 November 2020 had approved the Scheme of Arrangement (the 'Scheme') for merger of its wholly owned subsidiary (transferor company) with the Company (transferee company) and adjustment of securities premium of the Transferee Company with the debit balance of Capital Reserve. Application seeking approval of the Scheme was subsequently filed with Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi Bench on 25 March 2021. The earlier financial statements of the Company for the year ended 31 March 2022 were approved by the Board of Directors at its meeting held on 30 May 2022 without giving effect to the Scheme since the petition was pending before the NCLT.

पंजीकृत कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052 निगमित कार्यालयः गांव नवादा फतेहपुर, पी.ओ. सिकंदरपुर बढ़ा निकट आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा)-122004 सीआईएन: L74899DL1992PLC050333 फोनः +91 11 49373931, +91 124 2290427, फैक्सः +91 124 2290676

UNO MINDA DRIVING THE NEW

Y

ईमेलः investor@unominda.com वेबसाइटः www.unominda.com

30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही हेतु एकल व समेकन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

		समेकन	0					30	एकल	10		
समाप्त	तिमाही	समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष		विवरण	समाप्त र्	तेमाही	समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष	
	30-09-2021	30-09-2022	30-09-2021	31-03-2022				30-09-2021			31-03-202	
अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित			अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षि	
2,876.84	2,113.99	5432.03	3716.54	8313.00	1.	प्रचालनों से कुल आमदनी	1807.01	1299.76	3325.68	2185.26	4959.73	
236.93	155.72	417.90	194.51	559.42	2.	अवधि के दौरान निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से पूर्व)	190.72	90.98	288.96	97.36	287.26	
236.93	155.72	417.90	194.51	559.42	3.	कर से पूर्व अवधि के दौरान निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	190.72	90.98	288.96	97.36	262.28	
182.35	113.43	332.22	138.30	412.64	4.	कर के बाद अवधि के दौरान निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	160.31	68.08	244.30	72.79	196.03	
199.98	117.23	355.38	146.81	435.06	5.	अवधि के दौरान कुल व्यापक आमदनी [जिसमें समाविष्ट अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (कर के बाद) तथा अन्य व्यापक आमदनी (कर के बाद)]	177.41	65.95	252.38	71.31	195.23	
114.51	57.12	114.51	57.12	57.12	6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 2 प्रति शेयर)	114.51	57.12	114.51	57.12	57.12	
			8	3381.33	7.	आरक्षित (विगत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शितानुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित शामिल नहीं)				-	2598.98	
2.97	1.68	5.40	2.06	6.32	8.	उपार्जन प्रति शेयर (रु. 2 प्रत्येक का अंकित मूल्य) (प्रचालन जारी रखने व बंद करने के लिए) वार्षिकी नहीं। (क) बेसिक (रु. में)	2.80	1.21	4.27	1.31	3.48	
2.96	1.67	5.39	2.05	6.30		(ख) डायल्युटेड (रु. में)	2.79	1.20	4.26	1.30	3.47	

टिप्पणियां:-

- 1. दि. 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही हेतु समेकन एवं एकल वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षित समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा दि. 10 नवम्बर, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया।
- 2. यह उपरोक्त दि. 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए कम्पनी के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अनुसरण में, स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया है। इन दोनों परिणामों (एकल एवं समेकन) के पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट(टॉ) एनएसई वेबसाइट (www.nseindia.com), बीएसई वेबसाइट

NCLT, New Delhi Bench sanctioned the Scheme and pronounced its order on 11 August 2022, certified copy of which was received by the Company on 1 September 2022 and was filed with ROC on 29 September 2022.

Pursuant to the Scheme, all the assets, liabilities, reserves and surplus of the transferor company have been transferred to and vested in the Company with effect from the appointed date i.e. 1 April 2020 at their carrying values.

Accordingly, to give effect to the Scheme from the appointed date i.e. 1 April 2020, the Company has revised the earlier approved standalone financial statements for the year ended 31 March 2022. Revised financial statements of the Company for the year ended 31 March 2022 were approved by the Board of Directors at its meeting held on 23 September 2022.

Further, financial results for the guarter ended 30 June 2022 which were approved by the Board of Directors at its meeting held on 12 August 2022 are also restated to give effect to the aforesaid merger and accordingly reported in these financial results.

Reconciliation of published and restated numbers for the quarter ended 30 June 2022 are as given below:

Particulars	Earlier published Consolidated financial results	Restated financial results	Change(s)	Earlier published standalone financial results	Restated financial results	Change(s)
Total Income	3,382.64	3,382.64	1	3,695.17	3,382.64	(312.53)
Total expenses	2,961.31	2,961.31		3,519.73	2,961.31	(558.42)
Profit before tax	421.33	421.33		175.44	421.33	245.89
Profit after tax	286.60	313.16	26.56	110.85	313.16	202.31
EPS - Basic (INR)	0.94	1.03	0.09	0.36	1.03	0.67
EPS - Diluted (INR)	0.94	1.03	0.09	0.36	1.03	0.67

The above financial results of the Company as published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ('Listing Regulations') have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 10 November 2022. These financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. Limited review under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors of the Company. The auditors have expressed an unmodified report on the Financial Results of the Company. For more details on results, visit investors section of our website at www.campusactivewear.com and Financial Results at Corporate Section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

The Company completed its Initial Public Offer (IPO) through an offer for sale of 47,950,000 Equity Shares of the face value of INR. 5/- each at an issue price of INR. 292/- per Equity Share. The Equity Shares of the Company were listed on BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) on 9 May 2022.

- The financial results for the corresponding quarter and six month ended 30 September 2021 have not been subject 5 to an audit or review by our statutory auditors. However, the management has exercised necessary due diligence to ensure that the financial results provide a true and fair view of the Company's affairs.
- The Board of Directors and shareholders of the Company at their meeting held on 9 November 2021, had approved 6 stock split of one equity share having face value of INR 10 each into two equity shares having face value of INR 5 each. Amount of EPS for guarter and six month ended 30 September 2021 has been restated accordingly.

